



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 सितंबर 2025

जून 2025 के अंत में भारत का बाह्य ऋण

जून 2025 के अंत में बाह्य ऋण की स्थिति और पहले की तिमाहियों के संशोधित आँकड़े [विवरण I \(आईएमएफ प्रारूप¹\)](#) और [II \(पुराने प्रारूप\)](#) में दिए गए हैं। जून 2025 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं।

मुख्य बातें

- जून 2025 के अंत में, भारत का बाह्य ऋण 747.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2025 के अंत के स्तर से 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है ([तालिका 1](#))।
- जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2025 के अंत में 19.1 प्रतिशत से घटकर जून 2025 के अंत में 18.9 प्रतिशत हो गया।
- भारतीय रुपये और येन, यूरो और एसडीआर² जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के अवमूल्यन के कारण मूल्यन हानि 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही। मूल्यन प्रभाव को छोड़कर, मार्च 2025 के अंत की तुलना में जून 2025 के अंत तक बाह्य ऋण 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया।
- जून 2025 के अंत में, दीर्घकालिक ऋण (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली) 611.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें मार्च 2025 के अंत के स्तर से 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली) की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में 18.3 प्रतिशत से घटकर जून 2025 के अंत में 18.1 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा

¹ आईएमएफ की 2013 के बाह्य ऋण सांख्यिकी (ईडीएस) गाइड में निर्धारित अवधारणाएं, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) 2008 और आईएमएफ के भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम 6) के छठे संस्करण, जो 2009 में प्रकाशित हुई थी, के अनुरूप हैं।

² एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार

आरक्षित निधि की तुलना में अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात जून 2025 के अंत में घटकर 19.4 प्रतिशत (मार्च 2025 के अंत में 20.1 प्रतिशत) हो गया।

- अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अल्पकालिक ऋण (अर्थात, ऋण चुकौती जिसमें अगले बारह महीनों में देय मूल परिपक्वता तक दीर्घकालिक ऋण और मूल परिपक्वता तक अल्पकालिक ऋण शामिल हैं) जून 2025 के अंत में कुल बाह्य ऋण का 40.7 प्रतिशत (मार्च 2025 के अंत में 41.3 प्रतिशत) था और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का 43.6 प्रतिशत (मार्च 2025 के अंत में 45.4 प्रतिशत) था ([तालिका 2](#))।
- अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग का ऋण भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, जिसकी हिस्सेदारी जून 2025 के अंत में 53.8 प्रतिशत थी, इसके बाद भारतीय रुपया (30.6 प्रतिशत), येन (6.6 प्रतिशत), एसडीआर (4.6 प्रतिशत) और यूरो (3.5 प्रतिशत) में मूल्यवर्ग का ऋण आता है।
- सामान्य सरकार का बकाया ऋण कम हो गया, जबकि गैर-सरकारी ऋण मार्च 2025 के अंत की तुलना में जून 2025 के अंत में बढ़ गया ([तालिका 3](#))।
- कुल बाह्य ऋण में गैर-वित्तीय निगमों के बकाया ऋण की हिस्सेदारी सबसे अधिक 35.9 प्रतिशत रही, जिसके बाद जमा स्वीकार करने वाले निगम (केंद्रीय बैंक को छोड़कर) (27.4 प्रतिशत), सामान्य सरकार (22.5 प्रतिशत) और अन्य वित्तीय निगम (9.5 प्रतिशत) का स्थान था।
- ऋण, बाह्य उधार का सबसे बड़ा घटक रहा, जिसकी हिस्सेदारी 34.8 प्रतिशत थी, इसके बाद मुद्रा और जमा (23.0 प्रतिशत), व्यापार ऋण और अग्रिम (17.7 प्रतिशत) और ऋण प्रतिभूतियों (16.8 प्रतिशत) की हिस्सेदारी रही ([तालिका 4](#))।
- ऋण सेवा (अर्थात मूलधन की चुकौती और ब्याज भुगतान) जून 2025 के अंत में चालू प्राप्तियों का 6.6 प्रतिशत रही, जो मार्च 2025 के अंत के समान है ([तालिका 5](#))।

Table 1: External Debt – Outstanding and Variation							
(US\$ billion, unless indicated otherwise)							
Sector	Outstanding as at end of			Absolute Variation		Percentage Variation	
	June 2024 PR	March 2025 PR	June 2025 P	June 2025 over June 2024	June 2025 over March 2025	June 2025 over June 2024	June 2025 over March 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I. General Government	149.4	168.4	168.0	18.6	-0.4	12.4	-0.3
II. Central Bank	0.3	0.05	0.1	-0.2	0.0	-71.4	72.5
III. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	194.1	202.1	204.5	10.4	2.5	5.4	1.2
IV. Other Sectors	305.5	330.4	338.7	33.2	8.3	10.9	2.5
IV.1. Other financial corporations	51.3	69.5	70.8	19.5	1.3	38.1	1.9
IV.2. Non-financial corporations	254.2	260.9	267.9	13.7	7.0	5.4	2.7
IV.3. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.01	0.01	0.01	0.0	0.0	-10.3	-3.5
V. Direct Investment: Intercompany Lending	32.2	35.0	35.8	3.6	0.9	11.3	2.5
Total Debt (I to V)	681.5	735.9	747.2	65.7	11.2	9.6	1.5
<i>Memo Items:</i>							
A. Long-term Debt (original maturity) [@]	549.5	601.4	611.7	62.2	10.3	11.3	1.7
B. Short-term Debt (original maturity) [#]	132.0	134.5	135.4	3.5	1.0	2.6	0.7
PR: Partially Revised. P: Provisional.							
[@] : Debt with original maturity of above one year.							
[#] : Debt with original maturity of up to one year.							
Note: Figures may not add up to total due to rounding off.							

Table 2: Residual Maturity of Outstanding External Debt as at end-June 2025					
(US\$ billion, unless indicated otherwise)					
Sector	Short-term up to one year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	Total (2 to 5)
1	2	3	4	5	6
I. General Government	11.0	12.5	12.1	132.4	168.0
I.A. Short-term Debt	0.3	-	-	-	0.3
I.B. Long-term Debt	10.7	12.5	12.1	132.4	167.7
II. Central Bank	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
II.A. Short-term Debt	0.1	-	-	-	0.1
II.B. Long-term Debt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	124.5	36.2	9.5	34.2	204.5
III.A. Short-term Debt	3.3	-	-	-	3.3
III.B. Long-term Debt	121.2	36.2	9.5	34.2	201.2
IV. Other Sectors	161.7	30.4	46.6	100.0	338.7
IV.A. Short-term Debt	131.8	-	-	-	131.8
IV.B. Long-term Debt	29.9	30.4	46.6	100.0	206.9
IV.1. Other financial corporations	6.9	12.9	22.6	28.4	70.8
IV.1.A. Short-term Debt	0.9	-	-	-	0.9
IV.1.B. Long-term Debt	6.0	12.9	22.6	28.4	70.0
IV.2. Non-financial corporations	154.8	17.5	24.0	71.6	267.9
IV.2.A. Short-term Debt	130.9	-	-	-	130.9
IV.2.B. Long-term Debt	23.8	17.5	24.0	71.6	137.0
IV.3. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.01	0.0	0.0	0.0	0.01
IV.3.A. Short-term Debt	0.0	-	-	-	0.0
IV.3.B. Long-term Debt	0.01	0.0	0.0	0.0	0.01
V. Direct Investment: Intercompany Lending	7.1	4.6	6.4	17.8	35.8
A. Total Short-term Debt	135.4	-	-	-	135.4
B. Total Long-term Debt	168.9	83.8	74.6	284.4	611.7
C. Total Debt (A+B)	304.3	83.8	74.6	284.4	747.2
Memo Items:					
Short-term Debt (residual maturity) as per cent of Total External Debt					40.7
Short-term Debt (residual maturity) as per cent of Foreign Exchange Reserves					43.6
Note: Figures may not add up to total due to rounding off.					

Table 3: Government and Non-Government External Debt

(US\$ billion, unless indicated otherwise)

Component	End-March			End-June
	2023	2024 PR	2025 PR	2025 P
1	2	3	4	5
A. Government Debt (I+II)	133.3	148.7	168.4	168.0
(As percentage of GDP)	(4.1)	(4.1)	(4.4)	(4.3)
I. External Debt on Government Account under External Assistance	91.1	95.4	101.9	104.6
II. Other Government External Debt [@]	42.3	53.2	66.5	63.3
B. Non-Government Debt	490.6	520.1	567.5	579.2
(As percentage of GDP)	(15.0)	(14.4)	(14.7)	(14.7)
B.1. Central Bank	0.1	0.2	0.05	0.1
B.2. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	163.4	186.8	202.1	204.5
B.3. Other Financial Corporations	55.0	48.5	69.5	70.8
B.4. Non-financial Corporations	242.5	252.7	260.9	267.9
B.5. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.01	0.01	0.01	0.01
B.6. Direct Investment: Intercompany Lending	29.6	31.8	35.0	35.8
C. Total Debt (A+B)	623.9	668.7	735.9	747.2
(As percentage of GDP)	(19.1)	(18.5)	(19.1)	(18.9)

PR: Partially Revised. P: Provisional.

[@]: Other government external debt includes defence debt, investment in treasury bills/government securities by foreign portfolio investors, foreign central banks and international institutions, and SDR allocations by the IMF.**Note:** Figures may not add up to total due to rounding off.**Table 4: Outstanding External Debt by Instruments**

(US\$ billion)

Instrument	End-March			End-June
	2023	2024 PR	2025 PR	2025 P
1	2	3	4	5
1. Special Drawing Rights (allocations)	22.3	21.9	22.0	22.7
2. Currency and Deposits	141.1	154.8	167.6	171.7
3. Debt Securities	104.9	115.2	130.1	125.2
4. Loans	201.8	221.3	250.1	259.8
5. Trade Credit and Advances	124.3	123.7	131.2	131.9
6. Other Debt Liabilities	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Direct Investment: Intercompany Lending	29.6	31.8	35.0	35.8
Total Debt	623.9	668.7	735.9	747.2

PR: Partially Revised. P: Provisional.

Note: Figures may not add up to total due to rounding off.

Table 5: India's Key External Debt Indicators

(Per cent, unless indicated otherwise)

End-March	External Debt (US\$ billion)	Ratio of External Debt to GDP	Debt Service Ratio	Ratio of Foreign Exchange Reserves to Total Debt	Ratio of Concessional Debt to Total Debt	Ratio of Short-term Debt (original maturity) to Foreign Exchange Reserves	Ratio of Short-term Debt (original maturity) to Total Debt
1	2	3	4	5	6	7	8
1991	83.8	28.3	35.3	7.0	45.9	146.5	10.2
1996	93.7	26.6	26.2	23.1	44.7	23.2	5.4
2001	101.3	22.1	16.6	41.7	35.4	8.6	3.6
2006	139.1	17.1	10.1 [#]	109.0	28.4	12.9	14.0
2007	172.4	17.7	4.7	115.6	23.0	14.1	16.3
2008	224.4	18.3	4.8	138.0	19.7	14.8	20.4
2009	224.5	20.7	4.4	112.2	18.7	17.2	19.3
2010	260.9	18.5	5.8	106.9	16.8	18.8	20.1
2011	317.9	18.6	4.4	95.9	14.9	21.3	20.4
2012	360.8	21.1	6.0	81.6	13.3	26.6	21.7
2013	409.4	22.4	5.9	71.3	11.1	33.1	23.6
2014	446.2	23.9	5.9	68.2	10.4	30.1	20.5
2015	474.7	23.8	7.6	72.0	8.8	25.0	18.0
2016	484.8	23.4	8.8	74.3	9.0	23.2	17.2
2017	471.0	19.8	8.3	78.5	9.4	23.8	18.7
2018	529.3	20.1	7.5	80.2	9.1	24.1	19.3
2019	543.1	19.9	6.4	76.0	8.7	26.3	20.0
2020	558.3	20.9	6.5	85.6	8.8	22.4	19.1
2021	573.4	21.1	8.2	100.6	9.0	17.5	17.6
2022	618.8	19.9	5.2	98.1	8.3	20.0	19.7
2023	623.9	19.1	5.3	92.7	8.2	22.2	20.6
2024 PR	668.7	18.5	6.7	96.7	7.4	19.7	19.1
2025 PR	735.9	19.1	6.6	90.8	6.9	20.1	18.3
End-June 2025 P	747.2	18.9	6.6	93.4	7.1	19.4	18.1

PR: Partially Revised. P: Provisional.

[#] works out to 6.3 per cent with the exclusion of India Millennium Deposits (IMDs) repayments of US\$ 7.1 billion and prepayment of external debt of US\$ 23.5 million.